

22 फरवरी, 2022

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना ने आज 22 फरवरी, 2022 को अपना 22 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया | माननीय डॉ. रामेश्वर सिंह, कुलपति, बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि रहे | डॉ. एस. के. चौधरी, उप-महानिदेशक आई.सी.ए.आर., नई दिल्ली, डॉ. त्रिलोक नाथ सिंह, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, डॉ. अंजनी कुमार, निदेशक, अटारी, पटना, डॉ. कृष्ण गोपाल मंडल, निदेशक, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान, मोतिहारी, डॉ. ए.के. ठाकुर, निदेशक (प्रसार), बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, डॉ. जे.एस. मिश्र, निदेशक, डी.डब्ल्यू.आर., जबलपुर, डॉ. एस. भास्कर, सहायक महानिदेशक (शस्य) नई दिल्ली आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे | सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का उद्घाटन सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया | समारोह का शुभारंभ करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार ने मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया | डॉ. कुमार ने अपने संबोधन में संस्थान में हो रहे अनुसंधान कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में बताया |



मुख्य अतिथि डॉ. रामेश्वर सिंह, कुलपति ने समारोह को संबोधित करते हुए 22 वें स्थापना दिवस पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी | उन्होंने अपने भाषण में इस संस्थान की भूमिका कृषि से जुड़े लोगों व उनकी आय में बढ़ोतरी के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की | उन्होंने इस संस्थान द्वारा विकसित नई कृषि तकनीक व अन्य महत्वपूर्ण कृषि तकनीकों के बारे में बताया व उनके उपयोग पर बल दिया | साथ ही साथ उन्होंने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी |



डॉ. त्रिलोक नाथ सिंह, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ने अपने व्याख्यान भाषण में कृषि से जुड़ी तकनीकों एवं मृदा एवं जल का समुचित प्रबंधन विषय पर जोर दिया एवं कहा कि हमारा अनुसंधान किसानों की जरूरत के अनुसार हो। वहीं डॉ. एसके चौधरी उप-महानिदेशक, आईसीएआर, नई दिल्ली ने भी इस संस्थान की उपलब्धियों को सराहा एवं पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में इस संस्थान की भूमिका व उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने अपने संबोधन भाषण में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन व किसानों की आय बढ़ाने व किसानों की क्षमता निर्माण करने पर विशेष बल दिया।

इस अवसर पर संस्थान के तकनीकी, प्रशासनिक एवं कुशल सहायक वर्ग से वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। समारोह के दौरान संस्थान द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा लिखित कृषिपयोगी पुस्तिकाओं एवं तकनीकी पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया।



इस समारोह के अवसर पर संस्थान के कर्मचारियों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया एवं विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। समारोह में सभी वर्गों के कर्मचारियों सहित राज्य के कृषि अधिकारियों ने भी भाग लिया। डॉ. शिवानी, प्रधान वैज्ञानिक (शस्य) ने कार्यक्रम का संचालन व डॉ. आशुतोष उपाध्याय, प्रभागाध्यक्ष, भूमि एवं जल प्रबंधन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना